

CLASS-2

SUBJECT-2ND LANGUAGE HINDI

CHAPTER-16

कौन ताकतवर

WORKSHEET

सार:-

● बच्चों इस दुनिया में हर चीज का अपना अलग महत्व होता है, चाहे वह इंसान हो या वस्तु हो। हर चीज का अपना गुण होता है। हमें कभी भी किसी को नीचा दिखा कर या नीचा समझ कर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, और ना ही उसे कभी कम समझना चाहिए। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें सूरज और हवा खुद को ऊँचा मानकर एक-दूसरे को कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।

● एक बार सूरज और हवा आपस में बात कर रहे थे। बात करते-करते दोनों एक -दूसरे से बहस करने लगे और बहस करने का कारण यह था कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। सूरज बहुत ही शांति से बात कर रहा था। वह कह रहा था कि वह

सबसे अच्छा है क्योंकि अगर वह नहीं रहेगा तो यह संसार समाप्त हो जाएगा। तभी हवा ने ऊँची आवाज में उत्तर दिया कि उसके बिना तो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, जीव- जंतु जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए वो खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बता रही थी। दोनों में इसी बात पर बहस बढ़ती गई।

- थोड़े समय बाद धरती पर शॉल ओढ़े एक व्यक्ति सड़क पर पैदल जा रहा था। तभी सूरज ने कहा कि हम दोनों में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है इसका फैसला यह इंसान ही कर सकता है। हवा हैरान होते हुए बोली कि वह कैसे? तो सूरज ने जवाब दिया कि हम में से जो भी इस धरती पर शॉल ओढ़े व्यक्ति की शॉल उतरवाने में कामयाब हो जाएगा वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहलाएगा। हवा ने सूरज की बात मानते हुए कहा कि ठीक है सबसे पहले कोशिश में करती हूँ।

- थोड़ी देर बाद हवा बहने लगी। हवा ने अपने बहाव को तेज किया। ठंडी और तेज हवा के कारण व्यक्ति का शॉल उड़ने लगा। व्यक्ति ने शॉल को अपने शरीर पर कसकर लपेट लिया। जैसे- जैसे हवा का बहाव तेज होता गया वैसे- वैसे व्यक्ति शॉल

को अपने शरीर पर और कसकर लपेट लेता। हवा ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।

- अब सूरज की बारी थी। सूरज ने तेज चमकना शुरू किया। तेज और ठंडी हवा के बाद व्यक्ति को सूरज की गरमाहट अच्छी लगने लगी। उस व्यक्ति ने अपने शरीर पर जो शॉल लपेटी थी उसे ढीला किया। सूरज की किरणें अब धीरे-धीरे तेज होने लगीं। सूरज की किरणें तेज होने के कारण व्यक्ति को गर्मी लगने लगी और उसने अपने शरीर से शॉल हटाकर हाथ में पकड़ लिया।

- हवा ने यह सब देखा और उसने अपनी हार को स्वीकार किया। हवा अपनी हार को स्वीकार करती हुए बोली कि ताकत और शेखीपूर्ण व्यवहार से विनम्रता का महत्व बहुत ज्यादा होता है। मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझसे अधिक ताकतवर हो।

- इस कहानी से हमने यह सीखा कि विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है।

Q1. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए:-

(a) गति-

(b) असफल-

(c) शक्तिशाली-

(d) श्रेष्ठ-

(e) वाद-विवाद-

(f) प्रयत्न-

Q2. एक शब्द में उत्तर दें:-

(a) किस चीज का महत्व सबसे ज्यादा है?

(b) सूरज और हवा में क्या हो रहा थी?

(c) सड़क पर पैदल चल रहा व्यक्ति अपने शरीर पर क्या ओढ़े हुए था?

(d) किसने अंत में अपनी हार को स्वीकार किया?

(e) किसने कहा मैं संसार में सबसे अच्छा हूँ?

Q3. किसने-किससे कहा:-

(a) ठीक है, पहले मैं ही प्रयत्न करती हूँ।

(b) मैं ही सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ।

EXERCISES FROM THE BACK OF THE LESSON

Page no.78:-

Q2. सोचें और बोलें:-

(i), (ii), (iii)

Q3. सोचें और लिखें:-

(i), (ii), (iii), (iv)

Page no. 79:-

Q4. सही मिलान करें:-

Page no.79:-

भाषा- मंथन:- Q1.

